

**वस्त्र मंत्रालय**  
**अगस्त, 2018 के लिए मंत्रिमंडल के लिए मासिक सार**

1. **नीतिगत निर्णय और महत्वपूर्ण उपलब्धियां:**

i. **केरल में बाढ़ राहत के लिए प्रदान की गई सहायता:** वस्त्र मंत्रालय ने सभी वस्त्र संघों और निर्यात संवर्धन परिषदों को केरल में राहत कार्यों में सहायता करने के लिए अपेक्षित सामग्री भेजने हेतु प्रेरित किया। देश में विभिन्न क्षेत्रों से वस्त्र इकाइयों द्वारा बड़ी मात्रा में वस्त्र सामग्री और धनराशि भेजी गई।

ii. **हथकरघा क्षेत्र**

क. **राष्ट्रीय हथकरघा दिवस:** देश भर में फैले सभी 28 बुनकर सेवा केंद्रों (डब्ल्यूएससी) में 07.08. 2018 को चौथा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। इसका मुख्य कार्यक्रम जयपुर में आयोजित किया गया। माननीय वस्त्र राज्य मंत्री ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की जहां बुनकरों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए 22 राष्ट्रीय पुरस्कार, 5 संत कबीर पुरस्कार और 5 राज्य पुरस्कार प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम के दौरान मुद्रा ऋण, लाइटिंग यूनिट्स, लूम्स एवं एसेसरीज तथा व्यक्तिगत वर्कशेडों की स्वीकृति भी प्रदान की गई।

ख. **हथकरघा एक्सपो:** घरेलू ग्राहकों में हथकरघा उत्पादों के प्रति रुचि बढ़ाने और हथकरघा बुनकरों को अपने उत्पाद सीधे ही ग्राहकों को बेचने में सक्षम बनाने के लिए दिल्ली, सूरत, एर्नाकुलम, अहमदाबाद, जबलपुर, बेंगलुरु और चैन्नई में अगस्त, 2018 के दौरान राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय हथकरघा एक्सपो विपणन कार्यक्रम आयोजित किए गए। अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी अर्थात् 10 भागीदारों के साथ 27 से 30 अगस्त, 2018 तक एचईपीसी के माध्यम से इंटर टेक्सटाइल्स शंघाई होम टेक्सटाइल्स का आयोजन किया गया था।

iii. **कपास:** अगस्त, 2018 के माह के दौरान कपास की अखिल भारत आवक 1.01 लाख गांठों की हुई। चूंकि अधिकांश अगस्त, 2018 के दौरान कच्ची कपास का बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से अधिक चल रहा था इसलिए एमएसपी के तहत भारतीय कपास निगम ने कोई खरीद नहीं की।

iv. **विद्युतकरघा क्षेत्र:**

क. विद्युतकरघा कामगारों की सामूहिक बीमा योजना के तहत अगस्त, 2018 के दौरान विभिन्न नोडल एजेंसियों द्वारा 14,847 विद्युतकरघा कामगारों को पंजीकृत किया गया जिसमें प्रीमियम का भारत सरकार का कुल हिस्सा 24,26,078/- रुपए था। अगस्त, 2018 माह में कुल 15036 करघों का उन्नयन किया गया और साधारण

विद्युतकरघों की स्व-स्थाने उन्नयन योजना के तहत 844.67 लाख रुपए की सब्सिडी जारी की गई।

ख. संशोधित समूह वर्कशेड योजना: इस योजना के अंतर्गत अगस्त, 2018 के दौरान 2.17 करोड़ रुपए और आगामी वर्ष 2018-19 के लिए 4.89 करोड़ रुपए की सब्सिडी जारी की गई।

v. प्रौद्योगिकी उन्नयन: अगस्त, 2018 माह के दौरान संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटफ्स) के तहत 821.04 करोड़ रुपए की परियोजना लागत और 62.07 करोड़ रुपए की सब्सिडी आवश्यकता वाली 219 यूआईडी जारी की गई।

\*\*\*\*\*